

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 12.08.2022

चोरी के 01 अदद मोटर साइकिल के इंजन व अवैध तमंचा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना मांधाता)

जनपद के थाना मांधाता के उ0नि0 श्री अनुज यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के गजेहड़ी पुलिया के पास से मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों 01. सचिन गौतम 02. फूलचन्द्र को चोरी के एक अदद मोटर साइकिल के इंजन व एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग, अपने दो और साथियों जो मौके से फरार हो गये हैं के साथ मिलकर मोटर साइकिल चोरी करके उनके पुर्जे खोलकर अलग-अलग बेचने का काम करते हैं। यह इंजन चोरी का है जिसे हम लोग बेचने के लिए जेठवारा जा रहे थे। बरामदशुदा मोटर साइकिल को 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सचिन गौतम पुत्र धर्मेन्द्र गौतम निवासी रूपपुर थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।
02. फूलचन्द्र पुत्र रामकिशोर निवासी रूपपुर थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- चोरी के एक अदद मोटर साइकिल के इंजन व एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 279/2022 धारा 41, 411, 414 भादंवि।
02. मु0अ0सं0 280/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सचिन गौतम उपर्युक्त।

पुलिस टीम उ0नि0 श्री अनुज यादव मय हमराह थाना मांधाता, जनपद प्रतापगढ़।

चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली नगर)

जनपद के थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 श्री राजकुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के डीडी फ्लेक्स टॉकीज के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 775/22 धारा 454,380,411 भादंवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी के विभिन्न सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा उक्त बरामदगी के संबंध में पूछताछ में बताया गया कि यह सामान चोरी का है, जिसे हमलोगों ने दिनांक 05.08.2022 को थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के गुरुद्वारा के पास एक व्यक्ति के घर से चुराया था जिसे हम लोग आज बेचने के लिए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

- 1- मो0 नसीम उर्फ छोटू पुत्र मो0 जहीर निवासी विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2- मो0 समीर पुत्र मो0 नसीर निवासी काशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़
।

बरामदगी – 01 बैग में 02 टोटी, 25 हैण्डल, 04 स्टापर व 02 टूटे हुए हुक एवं 1000 रुपये नगद ।

पुलिस टीम– उ0नि0 राजकुमार मय हमराह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।